



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 531 राँची, गुरुवार,

11 जुलाई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

8 जुलाई, 2019

संख्या-5/आरोप-1-15/2017-3546 (HRMS)-- श्री विनोद राम, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पांकी, पलामू के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-760/रा०, दिनांक-18.04.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं०-1- अंचल अधिकारी, पांकी पलामू के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान ग्राम-सगालीम के खाता सं०-82, प्लॉट सं०-966, रकबा-5.00 एकड़ भूमि पर अवस्थित 22 (बाईस) वृक्षों के पातन करने हेतु पत्रांक-418, दिनांक-30.08.2016 द्वारा आदेश देकर झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 का उल्लंघन किया गया।

आरोप सं०-2- श्री विनोद राम, झा०प्र०से०, अंचल अधिकारी, पांकी, पलामू के द्वारा झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 के नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए वृक्ष पातन करने का आदेश दिया गया।

आरोप सं०-3- श्री विनोद राम, झा०प्र०से०, अंचल अधिकारी, पांकी, पलामू के द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i),(ii) एवं (3) के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6096, दिनांक-11.05.2017 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा अपने पत्र, दिनांक-07.06.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7345, दिनांक-20.06.2017 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1419/रा०, दिनांक 17.07.2017 द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री राम के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया।

श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2911(HRMS), दिनांक 20.12.2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-117, दिनांक 13.05.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन श्री राम के विरुद्ध गठित तीनों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 के प्रावधानों के विपरीत ग्राम-सगालीम के खाता सं०-82, प्लॉट सं०-966, रकबा-5.00 एकड़ भूमि पर स्टेडियम निर्माण हेतु 22 (बाईस) वृक्षों के पातन की अनुमति दी गई, किन्तु श्री राम द्वारा पातित वृक्षों का उपयोग निजी उपयोग में नहीं लाया गया है।

अतः, समीक्षोपरांत श्री विनोद राम, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पांकी, पलामू के विरुद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	VINOD RAM 20080400065	श्री विनोद राम, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पांकी, पलामू के विरुद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
